

हरियाणा के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य

10+2 पास विद्यार्थियों के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं । जिसके लिए विद्यार्थी के पास 15 तरह के डाक्यूमेंट्स होने जरूरी है

1. फैमिली आईडी ।
2. आधार कार्ड।
- 3.10वीं का प्रमाण पत्र।
4. 12वीं का प्रमाण पत्र।।
5. रिहायशी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) इसको बनवाने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है ।
6. जाति प्रमाण पत्र (SC और BC विद्यार्थियों के लिए जरूरी)।
7. गैप ईयर सर्टिफिकेट (उन्होंने पिछली बार 10+2 की हो या जिनका किसी कारण गैप रहा हो) ।
8. हस्ताक्षर व पासपोर्ट साइज फोटो ।
9. इनकम सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज्यादा पुराना न हो (बीसी के लिए 250000) ।
10. चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलेगा । (लेकिन जिस विद्यार्थी ने 10+2 ओपन स्कूल से की है और जिसका गैप ईयर है वह अपने गांव के सरपंच से या वार्ड के एमसी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकता है)
11. Email ID व मोबाइल नंबर (मोबाइल नंबर वही भरे जो परमानेंट हो क्योंकि आपके तीनों सालों के लिए कॉलेज में जो भी कार्य मोबाइल से संबंधित मैसेज भेजने के लिए होंगे वह इसी नंबर पर आएंगे । इसको बदला नहीं जा सकता ।)
12. माइग्रेशन सर्टिफिकेट (भिवानी बोर्ड को छोड़कर किसी भी बोर्ड जैसे सीबीएसई( CBSE ) व अन्य बोर्ड जो किसी भी राज्य का हो सकता है)
13. बैंक खाते की फोटो कॉपी व उस बैंक का IFSC CODE जिसमें आपका खाता है (बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए यदि नहीं है तो बैंक में जाकर तुरंत करवाएं)
14. यदि कोई विद्यार्थी EWS कैटेगरी में फार्म भरता है। तो उसका EWS सर्टिफिकेट जरूरी है।
15. NSS/NCC/Sports सर्टिफिकेट।

सभी आदरणीय बन्धुओं से निवेदन किया जाता है कि आप सत्र 2021-22 में हरियाणा के किसी कालेज में प्रवेश के लिए apply करने वाले आवेदकों की online form भरने में सहायता करें। आवेदकों को निम्नलिखित सावधानियां रखने के लिए प्रेरित करें

1. Admission form में आवेदक स्वयं का mobile phone number और Email ID ही भरें। इस बात का ध्यान रखें कि cyber cafe (दुकान) पर फार्म भरने वाला उसका mobile phone number और Email ID ना भर दें। प्रवेश सम्बन्धित सारी सूचनाएं और प्रवेश के बाद भी सारी सूचनाएं प्रवेश फार्म भरे गए mobile phone number और Email ID पर ही भेजी जाती है। किसी ओर के mobile phone number और Email ID प्रवेश फार्म में भरे जाने पर आवेदक महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रह जाएंगे। समय पर फीस ना भर सकने के कारण प्रवेश से वंचित रह जाएंगे।
2. बी ए में प्रवेश का फार्म भरते समय अपनी choices के क्रम में सभी उपलब्ध subject combinations भरें। ऐसा करने से आवेदक के प्रवेश के chances बढ़ जाएंगे। इस बार मेरिट उंची जा सकती है।
3. Online admission form को भरने के बाद अच्छी प्रकार पढ़ने के उपरांत ठीक हो तभी submit करें।
4. Online apply करने के बाद आवेदक अपना Email address , application ID और password जरूर नोट कर ले। Application form के print की दो copies सुरक्षित रखें